

# पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय फरवरी, 2021 महीने की प्रमुख उपलब्धियां

## मैरीटाइम इंडिया समिट-2021

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट- 2021 का उद्घाटन किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री ने "मैरीटाइम इंडिया विजन-2030" जारी करने के अलावा, मर्कन्टाइल मैरीटाइम डोमेन अवेरनेस सेंटर (एमएम-डीएसी) की भी शुरूआत की, जो समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव क्षमता, संरक्षण तथा समुद्री पर्यावरण की हिफाजत बढ़ाने के लिए एक सूचना प्रणाली है। समिट के दौरान, 8 से अधिक देशों के मंत्रियों, 50 ग्लोबल सीईओ और 160 वक्ताओं जिनमें 24 देशों से अंतराष्ट्रीय वक्ता शामिल हैं, ने समिट में भाग लिया।

## पत्तन

(i) माननीय प्रधान मंत्री ने कोयम्बटूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौरमपल्लम पुल को 8 लेन बनाने का कार्य और रेल ओवर ब्रिज देश को समर्पित किया तथा वीओसी पत्तन, तुतीकोरीन पर 5 मैगा वॉट का भूतल आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी।

(ii) जवाहरलाल नेहरू पत्तन में फरवरी- 2020 में 5.74 मिलियन टन की तुलना में फरवरी- 2021 के महीने के दौरान 6.25 मिलियन टन कुल कार्गो की संभलाई की गई, जो पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में कुल कार्गो यातायात से 8.84% अधिक है। टीईयू के संबंध में, जेएनपीटी ने फरवरी – 2021 महीने के दौरान 461,861 टीईयू की संभलाई की। पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में कंटेनर यातायात में 10.88% की वृद्धि हुई है।

(iii) जेएन पत्तन ने फरवरी 2021 के दौरान 500 रैकों की संभलाई की और वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल से फरवरी) में रेल- गुणांक 20.15% रहा। जेएन पत्तन में समग्र रेल संभलाई निष्पादन में सुधार का श्रेय सभी कंटेनर ट्रेन प्रचालक (कॉन्कोर और निजी सीटीओ दोनों), रेलवे और सभी पत्तन टर्मिनलों जैसे सभी हितधारकों की कुशलता और समन्वय को दिया जा सकता है।

## महापत्तन प्राधिकरण (एमपीए) विधेयक

(iv) राज्य सभा ने दिनांक 10.02.2021 को संशोधनों के साथ एमपीए विधेयक पारित किया और इस कानून को लोक सभा द्वारा दिनांक 12.02.2021 को अंततः पारित किया गया। राष्ट्रपति की सहमति के बाद, इसे दिनांक 18.02.2021 को भारतीय राजपत्र असाधारण भाग II- खंड 1 में अधिसूचित किया गया।

## अंतर्देशीय जल परिवहन

(i) माननीय प्रधान मंत्री ने असम में दिनांक 18.02.2021 को महाबाहु ब्रह्मपुत्र की डिजीटल रूप से शुरूआत की और आईडब्ल्यूआई की निम्नलिखित पहलों का उद्घाटन किया:-

- असम सरकार द्वारा चलाए जाने वाले 4 रो-पैक्स जलयानों का फ्लैगिंग ऑफ
- एमवी जेएफआर जेकब - गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच सेवा के लिए
- एमवी बोब खातिंग - धुबरी और हतसिंगीमारी के बीच सेवा के लिए
- एमवी रानी गायदीनलू और एमवी सचिन देव बर्मन – नेमाती और कमलाबारी (माजुली) के बीच सेवा के लिए
- जोगीघोपा, पांडू, बिश्वनाथघाट और नेमाती पर 4 पर्यटन जेट्टियों के निर्माण के लिए आधारशिला रखना
- जोगीघोपा में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल के निर्माण के लिए आधारशिला
- आईडब्ल्यूआई डिजीटल पोर्टलों और पानी (PANI) को देश को समर्पित करना।

(ii) माननीय प्रधान मंत्री ने कोच्ची में दिनांक 14.02.2021 को 2 रो-रो जलयानों एम.वी. आदि शंकरा और एम.वी. सी वी रमन को देश को समर्पित किया।